



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 26, 1977/फाल्गुन 7, 1898

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 26, 1977/PHALGUNA 7, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

### PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 26th February 1977

**No DRAWBACK/PN-6/77**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No 52/F No 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 as amended from time to time—

I For sub-items (i) to (iv) of Item (c) of clause (A) of sub-serial No 2502 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

(c) Wool Content

- (i) in the worsted yarn of weaving quality Rs. 26.54 (Rupees twenty six and paise fifty four only) per kg
- (ii) in the worsted yarn of weaving quality Rs. 15.75 (Rupees fifteen and paise seventy five only) per kg.  
not made from wool to,
- (iii) in the worsted yarn of hosiery quality Rs. 24.80 (Rupees twenty four and paise eighty only) per kg.  
made from wool top excluding hand knitting yarn.
- (iv) in the worsted yarn of hosiery quality Rs. 14.00 (Rupees fourteen only) per kg  
not made from wool top excluding hand knitting yarn.

Provided that—

- (i) the drawback at the above rates on account of fibre content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that the synthetic fibres mentioned at (a) to (d) above contained in the export goods are duty paid virgin fibres (and not the fibres obtained from fibres wastes, yarn waste or fabric waste by garnetting or by any other process).
- (ii) no rebate of duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.
- (iii) the drawback at the above rates on fibre content may not be allowed in respect of those fibres for which the declaration as aforesaid has not been made.

II For sub-item (e) and (f) of item (i) of clause (C) of sub-serial No 2503 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely—

- (e) wool content in worsted yarn of weaving Rs. 27.60 (Rupees twenty seven and paise sixty only) per kg.
- (f) Wool content in worsted yarn of hosiery Rs. 25.80 (Rupees twenty five and paise eighty only) per kg. quality excluding hand knitting yarn or knitting wool, made from wool top.

Provided that—

- (1) the drawback at the above rates on account of synthetic fibre content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that—
  - (a) the Synthetic fibres mentioned at (a) to (d) above contained in export goods are duty paid virgin fibres (and not the fibres obtained from fibres waste, yarn wastes or fabric wastes by garnetting or by any other process).
  - (b) the yarn used under (e) and (f) above is worsted.
  - (c) no rebate of duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.
- (2) The drawback at the above rates on fibre content may not be allowed in respect of those fibres for which declaration as aforesaid has not been made.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 16th day of December, 1976.

### राजस्व और वेंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1977

सं० प्रतिअदायगी/सां० सू०-6/77. —समागन्त तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र, अमाचरण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फ० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/फ० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एन० द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

I. उपक्रमांक 2502 के खंड (क) की मद (ड०) की उपमद (i) में (iv) तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(ड०) ऊन अन्तर्वस्तु —

- (i) वून टाप में निर्मित नुई किस्म के 26 54 रु० (केवल छव्वान रुपये वरूंड धागे में) प्रति कि० ग्रा० ।

- (ii) बूल टाप से तैयार नही किये गये 15.75 रु० (देवल पन्नीस रुपये  
बुनाई किस्म के वस्टर ड्रागे में पन्हनर पैसे) प्रति कि० ग्रा०
- (iii) बूल टाप से निर्मित होजरी किस्म 24.80 रु० (देवल चौबीस रुपये  
के वस्टर ड्रागे में, जिसमें हाथ की अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०  
बुनाई का धागा शामिल नहीं है
- (iv) बूल टाप से तैयार नही किये गये 14.00 रु० (देवल चौदह रुपये)  
होजरी किस्म के वस्टर ड्रागे में, प्रति कि० ग्रा०  
जिसमें हाथ की बुनाई का धागा शामिल  
नहीं है।

परन्तु यह तब जबकि —

- (i) तंतु अन्तर्वस्तु के कारण उपर्युक्त दरों पर प्रतिअदायगी तभी स्वीकार्य होगी जब निर्माता/निर्माता के समय यह घोषित करता है कि निर्मित किये जाने वाले मासे में निहित ऊपर (क) से (घ) तक में उल्लिखित संश्लिष्ट तंतु शुल्क प्रदत्त नए तंतु हैं (और गार्नेटिंग द्वारा कथित अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा तंतु—रई, धागा—रई अथवा वस्त्र रई से प्राप्त तंतु नहीं है)
- (ii) तंतु पर अदा किये गये शुल्क से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत कोई छूट नहीं की गयी है।
- (iii) उन तनत्रों के मास में तंतु अन्तर्वस्तु पर उपर्युक्त दरों पर प्रतिअदायगी स्वीकार नहीं होगी जिन के लिये उपर्युक्त के अनुसार घोषणा नहीं की गयी है।

II उपक्रमांक 2503 के खंड (ग) की मद (1) की उपमद (ड) और (च) तथा तन्त्रों प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथातः—

- (क) बूल टाप से निर्मित बुनाई किस्म 27.60 रु० (देवल सत्तारस  
के वस्टर ड्रागे में ऊन अन्तर्वस्तु पन्ने साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०
- (च) होजरी किस्म के वस्टर ड्रागे में 25.80 रु० (देवल पन्नीस रुपये  
ऊन अन्तर्वस्तु जिसमें बूल टाप से अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०  
बुना हाथ की बुनाई का धागा अथवा  
बुनाई का ऊन शामिल नहीं है।

वर्णन कि —

- (1) संश्लिष्ट तंतु अन्तर्वस्तु के कारण प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दरें देवल तभी स्वीकार्य होंगी जब कि पीतलदान के समय निर्माता/निर्माता यह घोषण करता है कि —
- (क) निर्मित किये जाने वाले मासे में निहित ऊपर (क) से (घ) तक उल्लिखित संश्लिष्ट तंतु शुल्क प्रदत्त नए तंतु हैं (और गार्नेटिंग द्वारा कथित अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा तंतु—रई, धागा—रई अथवा वस्त्र—रई से प्राप्त किया गया तंतु नहीं है)।
- (ख) ऊपर (क) और (च) के अन्तर्गत इस्तेमाल किया गया धागा वस्टर है।

(ग) तन्तु पर अदा किये गये शुल्क से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1914 के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) उन तन्तुओं के संबंध में तन्तु अन्तर्वस्तु पर उपर्युक्त दरों पर प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं होगी जिनके लिये उपर्युक्त अनुसार घोषणा नहीं की गयी हो।

यह सार्वजनिक सूचना दिसम्बर, 1976 के 16वें दिन से लागू हुई मानी जाएगी।

**No. DRAWBACK/PN-7/77.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback (Rules 1971 (Notification No 52/F No 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time,—

For sub-items (A) and (B) of item (1) of sub-serial No. 2513 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| Description of goods                                  | Rate of drawback  |
|---|---|
| (A) Polyester filament yarn content —                 |   |
| (i) below 30 deniers . . . . .                        | Rs 95.00 (Rupees ninety five only) per kg                     |
| (ii) 30 deniers and above but below 75 deniers.       | Rs. 76.40 (Rupees seventy six and paise forty only) per kg.   |
| (iii) 75 deniers and above but below 100 deniers      | Rs 70.00 (Rupees seventy only) per kg                         |
| (iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers. | Rs. 59.50 (Rupees fifty nine and paise fifty only) per kg.    |
| (v) Above 750 deniers. . . . .                        | Rs 15.00 (Rupees fifteen only) per kg                         |
| (B) Polyamide filament yarn content                   |   |
| (i) Below 35 deniers . . . . .                        | Rs. 68.00 (Rupees sixty eight only) per kg.                   |
| (ii) 35 deniers and above but less than 80 deniers.   | Rs. 61.00 (Rupees sixty one only) per kg.                     |
| (iii) 80 deniers and above but less than 110 deniers. | Rs. 54.00 (Rupees fifty four only) per kg                     |
| (iv) 110 deniers and above but less than 150 deniers. | Rs. 47.00 (Rupees forty seven only) per kg.                   |
| (v) 150 deniers and above not above 750 deniers..     | Rs. 28.80 (Rupees twenty eight and paise eighty only) per kg. |
| (vi) Above 750 deniers.                               | Rs. 15.70 (Rupees fifteen and paise seventy only) per kg.     |

Provided that—

(1) the rates specified against (A) and (B) above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty at the appropriate rate on the yarn has been paid and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

(2) (i) the drawback at the above rates in respect of filament yarn content in respect of (A) and (B) above may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that the benefit of duty exemption on imports of yarn in terms of Department of Revenue and Banking Custom Notification No. 20 dated 7th February, 1977 has not been availed of in respect of yarn contents of the export goods

- (ii) where the declaration specified at (i) above has not been made the rate mentioned against sub-serial No 2619 shall apply subject to the condition mentioned therein

2 In the existing proviso under sub-serial No 2513 after the words 'specified above' the words 'in respect of item (C) and (D)' may be added

3 For sub-serial No 2619 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely,—

2619 (A) (i) Fabrics made wholly out of *Polyester filament yarn* other than hosiery, knitwear and embroidered fabrics—

- |  |   |
|--|---|
| (1) below 30 deniers . . . . .                       | Rs 77.00 (Rupees seventy seven only) per kg. of yarn content. |
| (2) 30 deniers and above but below 75 deniers.       | Rs 70.00 (Rupees seventy only) per kg of yarn content.        |
| (3) 75 deniers and above but below 100 deniers.      | Rs 63.00 (Rupees sixty three only) per kg. of yarn content    |
| (4) 100 deniers and above but not above 750 deniers. | Rs 49.00 (Rupees forty nine only) per kg of yarn content      |
| (5) above 750 deniers. . . . .                       | Rs. 15.00 (Rupees fifteen only) per kg. of yarn content.      |

(ii) Fabrics, quilted fabrics and quilted blankets, made wholly out of *nylon filament yarn*, other than hosiery, knitwear and embroidered fabrics—

- |  |  |
|--|--|
| (1) below 35 deniers. . . . .                        | Rs. 58.80 (Rupees fifty eight and paise eighty only) per kg of yarn content.   |
| (2) 35 deniers and above but less than 80 deniers    | Rs 51.80 (Rupees fifty one and paise eighty only) per kg of yarn content       |
| (3) 80 deniers and above but less than 110 deniers.  | Rs. 44.80 (Rupees forty four and paise eighty only) per kg. of yarn content.   |
| (4) 110 deniers and above but less than 150 deniers. | Rs. 37.80 (Rupees thirty seven and paise eighty only) per kg. of yarn content. |
| (5) 150 deniers and above but not above 750 deniers  | Rs 19.60 (Rupees nineteen and paise sixty only) per kg. of yarn content.       |
| (6) Above 750 deniers.                               | Rs. 6.50 (Rupees six and paise fifty only) per kg. of yarn content             |

(iii) Fabrics of mixed yarn of nylon filament and polyester filament (other than hosiery and knitwear and embroidered fabrics). Rate of yarn content as specified at sub-serial No 2619 (A)(i) and (ii)

(B) Textured yarn content in the goods specified at sub-serial No 2619 (A)(i) to (iii) above The rate of filament yarn content as specified under sub-serial No. 2619(A)(i) to (iii) above as the case may be plus Rs. 10/- (Rupees ten only) per kg

Provided that the rates specified against items (A) and (B) above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

4. For sub-serial No. 2620 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

2620 Fabrics and hosiery made wholly out of synthetic man made filament yarn and/or textured yarn, other than those covered by sub-serial No. 2619. Rate of yarn content specified at sub-serial No. 2513.

Provided that—

- (1) the rate specified above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944
  - (2) the drawback at the above rate in respect of filament yarn content should be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that the benefits of duty exemption on import of yarn in terms of Department of Revenue and Banking, Customs Notification No 20 dated 7th February, 1977 has not been availed of in respect of yarn contents of the export goods
5. For sub-serial No 2719 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely.—

2719(A) Made up articles made of—

- |  |   |
|--|---|
| (i) wholly out of Polyester filament yarn other than knitwear, hosiery and embroidered fabrics.                                    | Rates of yarn content as specified at sub-serial No. 2619(A)(i)   |
| (ii) wholly out of nylon filament yarn other than knitwear, hosiery, embroidered fabrics and fishing nets.                         | Rates of yarn content as specified at sub-serial No. 2619 A (ii).   |
| (iii) of mixed yarn of nylon filament and polyester filament (other than knitwear, hosiery, embroidered fabrics and fishing nets). | Rates of yarn contents as specified at sub-serial No. 2619(A)(iii).   |
| (B) Textured yarn content in the goods specified at sub-serial No. 2719(A)(i) (ii) and (iii)                                       | The rate of filament yarn content as specified at Sub-serial No. 2619(A)(i) to (iii) above as the case may be, plus Rs. 10.00 (Rupees ten only) per kg. |

Provided that the rates specified in items (A) and (B) above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944

6. For sub-serial No. 2721 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely.—

- |  |   |
|--|---|
| 2721 Knitwear and other made up articles (excluding fishing nets) manufactured wholly out of Synthetic man-made filament yarn and/or textured yarn, other than those covered by sub-serial No. 2719. | Rate of yarn content as specified at sub-serial No. 2513. |
|--|---|

Provided that—

- (1) the rates specified above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty at the appropriate rates on the yarn has been paid and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.
- (2) the drawback at the above rate in respect of filament yarn content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that the benefit of duty exemption on import of yarn in terms of Department of Revenue and Banking, Customs Notification No 20 dated 7th February 1977 has not been availed of in respect of yarn contents of the export goods

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 7th day of February, 1977

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy

सं० प्रतिअदायगी सा० सू० 7 77—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52 फा० सं० 602 2, 70—प्र० अ०) के नियम, 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी 1 एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है —

उप-क्रमांक 2513 की मद (1) की उप-मद (क) तथा (ख) तथा तत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् —

| माल का विवरण  | प्रतिअदायगी की दर  |
|---|--|
| (क) पालिएस्टर फिला नेट घागा अन्तर्वस्तु —                 |  |
| (i) 30 डेनियर से कम                                       | 95.00 रु० (केवल पचानव रुपये) प्रति किलोग्राम।              |
| (ii) 30 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 75 डेनियर से कम         | 76.40 रु० (केवल छिहत्तर रुपये चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (iii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम       | 70.00 रु० (केवल सत्तर रुपये) प्रति किलोग्राम।              |
| (iv) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर नहीं | 59.50 रु० (केवल उनसठ रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।  |
| (v) 750 डेनियर से ऊपर                                     | 15.00 रु० (केवल पन्द्रह रुपये) प्रति किलोग्राम।            |
| (ख) पोलिएमाइड फिलानेट घागा अन्तर्वस्तु —                  |  |
| (i) 35 डेनियर से कम                                       | 68.00 रु० (केवल अड़सठ रुपये) प्रति किलोग्राम।              |
| (ii) 35 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 80 डेनियर से कम         | 61.00 रु० (केवल इकसठ रुपये) प्रति किलोग्राम।               |
| (iii) 80 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 110 डेनियर से कम       | 54.00 रु० (केवल चौवन रुपये) प्रति किलोग्राम।               |
| (iv) 110 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम       | 47.00 रु० (केवल सैंतालिस रुपये) प्रति किलोग्राम।           |
| (v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर नहीं  | 28.80 रु० (केवल अट्ठाइस रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (vi) 750 डेनियर से ऊपर                                    | 15.70 रु० (केवल पन्द्रह रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम। |

परन्तु शर्त यह है कि —

- (1) धागा अन्तर्वस्तु के सबंध में उपर्युक्त (क) और (ख) के नम्मुख विनिर्दिष्ट दर तभी लागू होंगी यदि धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी समुचित दरो पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अधीन उक्त शुल्क में किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं की गई हो।
- (2) (i) ऊपर (क) और (ख) के संबंध में फिलामेंट धागा अन्तर्वस्तु के सबंध में उपर्युक्त दरो पर प्रतिअदायगी केवल तभी देय होगी यदि निर्यात निर्यातकर्ता पोतपरिवहन के समय यह घोषणा करे कि निर्यात किये जाने वाले माल की धागा अन्तर्वस्तु के संबंध में राजस्व और बैंकिंग विभाग की दिनांक 7-2-1977 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 20 की शर्तों के अनुसार धागे के आयात पर शुल्क से छूट का लाभ नहीं लिया गया है।
- (ii) जहां ऊपर (i) में विनिर्दिष्ट घोषणा नहीं की गई है, वहां उप-क्रमांक 2619 में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उसके सम्मुख उल्लिखित दर लागू होगी।

2. उप-क्रमांक 2513 के अन्तर्गत वर्तमान परन्तुक में "ऊपर विनिर्दिष्ट" शब्दों के बाद "मध्य (ग) और (घ) के सबंध में" शब्द जोड़ दिये जायें।

3. उप-क्रमांक 2619 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् —

2619(क) (i) होजरी, बुने हुए वस्त्रों और कशीदाकारी किये हुए वस्त्रों को छोड़कर पूर्ण रूप से पालिएस्टर धागे से बने वस्त्र —

- |  |   |
|--|---|
| (1) 30 डेनियर से कम                                      | धागा अन्तर्वस्तु का 77.00 रु० (केवल सतहसर रुपये) प्रति किलोग्राम।   |
| (2) 30 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 75 डेनियर से कम         | धागा अन्तर्वस्तु का 70.00 रु० (केवल सतर रुपये) प्रति किलोग्राम।     |
| (3) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम        | धागा अन्तर्वस्तु का 63.00 रु० (केवल तिरसठ रुपये) प्रति किलोग्राम।   |
| (4) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर नहीं | धागा अन्तर्वस्तु का 49.00 रु० (केवल उनचास रुपये) प्रति किलोग्राम।   |
| (5) 750 डेनियर से ऊपर                                    | धागा अन्तर्वस्तु का 15.00 रु० (केवल पन्द्रह रुपये) प्रति किलोग्राम। |

(ii) होजरी, बुने हुए वस्त्र तथा कशीदाकारी किये हुए वस्त्रों से भिन्न, नाइलोन फिलामेंट धागे से पूर्णतः बने वस्त्र, रुई भरे हुए वस्त्र तथा रुई भरे हुए कम्बल —

- |                     |   |
|---------------------|---|
| (1) 35 डेनियर से कम | धागा अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 58.80 रु० (केवल अट्ठावन रुपये अस्सी पैसे)। |
|---------------------|---|



- (2) 35 डेनियर और उससे ऊपर धागा अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर परन्तु 80 डेनियर से कम 51.80 रु० (केवल इत्यात्म रुपये अस्सी पैसे)
- (3) 80 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 110 डेनियर से कम धागा अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 44.80 रुपये (केवल चौदा-लीस रुपए अस्सी पैसे)
- (4) 110 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम धागा अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 37.80 रुपए (केवल सैंतीस रुपए और अस्सी पैसे)
- (5) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से कम धागा अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 19.60 रुपए (उन्नीस रुपए तथा सा पैसे)
- (6) 750 डेनियर से ऊपर धागा अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 6.50 रुपए (केवल छ रुपए तथा पचास पैसे)
- (iii) नाइलोन फिलामेंट तथा पालिग्रेटर फिलामेंट के मिश्रित धागे से बने वस्त्र (होजरी और बुने हुये वस्त्र और कशीदाकारी किए हुए वस्त्रों से भिन्न) धागा अन्तर्वस्तु की दर जो उपक्रम सं० 2619 (क) (i) और (ii) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है।
- (ख) ऊपर उपक्रम सं० 2619 (क) (i) से (iii) तक में विनिर्दिष्ट साल में टैक्सचर्ड धागे की अन्तर्वस्तु फिलामेंट धागा अन्तर्वस्तु की दर जो उपक्रम सं० 2619 (क) (i) से (iii) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हैं, जैसी स्थिति हो, और 10.00 रुपए (केवल दस रुपए) प्रति कि० ग्रा० ।

परन्तु यह सब जब कि धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में मद (क) तथा (ख) के सामने उल्लिखित दरे दर्शी लागू हो सकती है याद धागे पर केन्द्राय उत्पादन शुल्क की दरदार्जी सम्बन्धित दरों पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावलि, 1944 के अधीन, उक्त शुल्क से किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं की गई हो ।

4. उपक्रम सं० 2620 तथा उसमें सम्बन्धित प्राविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् .—

2620. उपक्रम सं० 2619 के अन्तर्गत गाने वाले वस्त्रों से भिन्न पूर्णतया सफ़लष्ट मानव निर्मित फिलामेंट धागे और/अथवा टैक्सचर्ड धागे से बने वस्त्र तथा होजरी । उपक्रम सं० 2513 में विनिर्दिष्ट धागा अन्तर्वस्तु की दर ।

परन्तु यह तब जब कि—

- (1) धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में ऊपर उल्लिखित दर तभी लागू हो सकती हैं यदि धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को आयायी समुचित दरों पर को जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन उक्त शुल्क से किसी प्रकार को छूट प्राप्त नहीं की गई हो।
- (2) फिनामेंट धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रति आयायी तभी अनुमत्य होगी यदि निर्यात/निर्यातकर्ता पोत लदान के समय इन सम्बन्ध में घोषणा करना है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रयुक्त धागा अन्तर्वस्तुओं के सम्बन्ध में धागे के आयात पर शुल्क से छूट के बारे में राजस्व तथा बैंकिंग विभाग को दिनांक 7-2-77 को मोमाशुल्क अधिसूचना सं० 20 की शर्तों के अनुसार लाभ नहीं उठाया गया है।

5. उपक्रम सं० 2719 तथा उसने मरघन प्रवेष्टियों से स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

2719(क). निम्नलिखित से बनी नैपार वस्तुये—

- |   |   |
|---|---|
| (i) बुने हुए वस्त्र, होजरी तथा कशीदाकारी किए हुये वस्त्रों से भिन्न पॉलिएस्टर फिनामेंट से पूर्णतया बने वस्त्र।  | धागा अन्तर्वस्तु की दरें जो उपक्रम सं० 2619(क) (i) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हैं। |
| (ii) बुने हुये वस्त्र, होजरी कशीदाकारी किए हुए वस्त्रों तथा मछनी पकड़ने के जालों से भिन्न नाइलोन फिनामेंट धागे से पूर्णतया बने हुये वस्त्र।                           | धागा अन्तर्वस्तु की दरें जो उपक्रम सं० 2619 (क) (ii) में विनिर्दिष्ट हैं।       |
| (iii) नाइलोन फिनामेंट तथा पॉलिएस्टर फिनामेंट के मिश्रित धागे से बने वस्त्र (बुने हुए वस्त्र, होजरी, कशीदाकारी किए हुए वस्त्रों तथा मछनी पकड़ने के लिए जालों से भिन्न) | धागा अन्तर्वस्तु की दरें जो उपक्रम सं० 2619(क) (ii) में विनिर्दिष्ट हैं।        |

(ख) उपक्रम सं० 2719 (क) (i), (ii) तथा (iii) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में टैम्पचर्ड धागा अन्तर्वस्तु

फिनामेंट धागा अन्तर्वस्तु की दर जो ऊपर उपक्रम सं० 2619(क) (i) से (iii) तक के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, जैसी भी स्थिति हो, और 10 रुपये (केवल दस .पए) प्रति किलोग्राम।

परन्तु यह तब जब कि धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित दरें तभी लागू होंगी यदि धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को आयायी समुचित दरों पर को जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन, उक्त शुल्क से किसी प्रकार को छूट प्राप्त नहीं की गई हो।

6. उपक्रम सं० 2721 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2721. उपक्रम सं० 2719 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों से भिन्न पूर्णतया उल्लिख्य मानव निर्मित फ्लामेंट धागे और / अथवा "कसचर्ड" धागे से बुने वस्त्र तथा अन्य तैयार वस्तुएं । अन्तर्वस्तु धागे की दर जो उपक्रम सं० 2513 में विनिर्दिष्ट है ।

परन्तु यह तब जब कि—

- (1) धागा अन्तर्वस्तु के सबंध में उपर उल्लिखित दर तभी लागू हो सकती है यदि धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी समुचित दरों पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन, उक्त शुल्क से किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं की गई हो ।
- (2) फ्लामेंट धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्राप्त अदायगी तभी अनुमत्य होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्ता पोत लदान के समय इस सम्बन्ध में घोषणा करता है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रयुक्त धागा अन्तर्वस्तुओं के सम्बन्ध में धागे के आयात पर शुल्क के छूट के बारे में राजस्व तथा बैंकिंग विभाग की दिनांक 7-2-77 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 20 की शर्तों के अनुसार लाभ नहीं उठाया गया है ।

यह सार्वजनिक सूचना सन् 1977 के फरवरी महीने के सातवें दिन से लागू हुई सम्बन्धी जाएगी ।

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

